


# लिंक टू स्पीक



दुनिया की पहली  
आँखों की भाषा  
हिंदी



**बेजुबान लोगों के विचारों की गूँज सबसे ऊँची होती है**


स्टीवन हॉकिंग

ब्लिंक टू स्पीक दुनिया की पहली आँखों की भाषा है। यह भाषा ऐसे लोगों के लिए निर्मित करी गई है जिन्हें बोलने में कठिनाई होती है। यह भाषा एल स / म न डी (एम्योट्रॉफिक लैटरल स्कलेटोसिस/ मोटर न्यूरोन डिसीज), मेन्ट्रल की चोट (क्वाड्रिप्लेजिया-गरदन के नीचे का लकवा), सेटेब्रल पाल्सी, मिट की चोट, स्ट्रोक, सेटेबेलर अटैक्सिया, मल्टिपल डक्लेटोसिस, पार्किंसन्स डिसीज और किसी अन्य न्यूरो-डिजनरेटिव विकार से ग्रस्त मरीजों के लिए सहायक है। सजग मस्तिष्क वाला मैकेनिकल वेंटिलेटर पर रखा गया मरीज भी इसका उपयोग कर सकता है। आईसीयू (इंटेंसिव केयर यूनिट) में रखे गए मरीजों या बाय - पैप, सी-पैप या होम वेंटिलेटर पर रखे गए मरीज भी इस भाषा का उपयोग कर सकते हैं। यह भाषा मरीजों तथा देखभाल करने वाले तथा परिवार के सदस्यों के बीच संवाद को आसान करेगी। यह भाषा संवाद के लिए स्थायी या अस्थायी उपाय बन सकती है।

ब्लिंक टू स्पीक ट्रेनर के साथ समय तय करने के लिए, कृपया आशा एक होप फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष और न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट की डिप्टी डायरेक्टर हेमांगी साने और गीत राठी, स्कवर्यंसेवक आशा एक हॉप और संस्थापक, ब्लिंक टू स्पीक से संपर्क करें।

श्री लक्ष्मी नारायण - विशेष धन्यवाद.

# बिलिंक टू स्पीक



आँखों की भाषा  
हिंदी

ब्लिंक टू स्पीक का उपयोग  
करते समय इन बातों का ध्यान रखें

1. आँखों की भाषा में आठ प्रमुख व्यंजन हैं।
2. सबसे सामान्य संदेशों के लिए आँखों की गतिविधियों के विभिन्न मिश्रणों का उपयोग किया जाता है।
3. आँखों की दो गतिविधियों के बीच हमेशा पर्याप्त अंतराल रखना सदा याद रखें।
4. संदेश को साफ समझाने के लिए हर संकेत को कई बार दोहराया जा सकता है।
5. पहले महीने में पहले 15 संकेतों से थ्रू कीजिए। धीरे-धीरे हर महीने 25 नए संकेतों के साथ अपनी शब्दावलि को बढ़ाइए।
6. पुस्तक के अंतिम पेज पर अल्फाबेट पेज है। आप दिए गए संकेतों में से गायब शब्दों की जानकारी देने के लिए इस सिस्टम का उपयोग कर सकते हैं।
7. आपके लिए छह अतिरिक्त संकेत भी हैं। अपने प्रिय जनों के लिए निजी संदेशों को निर्धारित करने के लिए इनका उपयोग करें।

# आँखों की भाषा की वर्णनियाला

आँखें बंद करें



पलकें झापकायें



बायें देखें



दायें देखें



ऊपर देखें



नीचे देखें



एक आँख झापकायें



आँखें घुमायें




लंबी देर तक आँखें बंद रखें




आरंभ  
अंत

बार बार आँखें झपकायें




गलत

1 बार पलकें झपकायें



हाँ


2 बार पलकें झापकायें



x 2

नहीं

3 बार पलकें झापकायें





x 3



मैं ठीक हूँ

1 बार बायें देखें  
1 बार दायें देखें  
1 बार पलकें झपकायें

A



B




C


मैं ठीक नहीं हूँ

1 बार पलकें झपकायें  
1 बार बायें देखें

A




B




परिवार को बुलाओ  
(बेटा/बेटी/पति/पत्नी/माँ/पिता)

1 बार पलकें झापकायें  
1 बार दायें देखें

A




B



डॉक्टर को बुलाओ


4 बार पलकें झापकायें



x 4

मुङ्गे नींद आ रही है



बायें देखें





घबराहट हो रही है

1 बार बायें देखें  
1 बार दायें देखें

A




B



पानी


1 बार ऊपर देखें



शैक्षालय

1 बार पलकें झपकायें  
1 बार ऊपर देखें

A




B



दिल में दर्द



2 बार पलकें झापकायें  
1 बार बायें देखें  
2 बार पलकें झापकायें

A



x 2

B




C



x 2

आज आप कैसे हैं?

बार बार एक आँख झपकायें



आपातकाल

## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



चक्कर आ रहे हैं



नाक बंद है



मरोड़



घबराहट हो रही है



गले में  
कुछ अटका है

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

लंबी देर तक आँखें बंद रखें  
बार बार आँखें झपकायें



संकट


## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



कोई परेशान कर रहा है



यौन शोषण



चोर




पुलिस को बुलाओ

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

2 बार एक आँख झपकायें



समस्या


## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



ठंड लग रही है



मुँझे थूकना है



गर्मी लग रही है



निवाला दांत में  
अटका है




सर दर्द

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

2 बार एक आँख झापकायें  
1 बार आँखें घुमायें



मेरा स्थान बदलो

## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ढको



कुर्सी



पलंग



सोफा



वीलचेयर




खाने की मेज़

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें


3 बार आँख झपकायें




मुझे तुम से प्यार है

1 बार ऊपर देखें  
1 बार आँख झापकायें

A




B



मुझे माफ कर दो


1 बार दायीं आँख झापकायें  
1 बार बायीं आँख झापकायें  
2 बार पलकें झापकायें

A




≤

B



C





x 2



धन्यवाद

1 बार ऊपर देखें  
1 बार नीचे देखें  
2 बार पलकें झापकायें

A



B




C



x 2

मुङ्गे गले लगाओ



1 बार आँख झपकायें



कुछ बात करते हैं

1 बार पलकें झापकायें  
1 बार ऊपर देखें  
1 बार एक ओँख झापकायें


A



B





C





चलो बाहर चलते हैं

1 बार बायें देखें  
1 बार दायें देखें  
1 बार आँख झपकायें


A



B




C




मुझे घर जाना है

1 बार बायें देखें  
1 बार आँखें घुमायें



मुझे मेरे कुत्ते  
/बिल्ली से मिलना है

2 बार पल्लकें झापकायें  
1 बार आँखें घुमायें  
2 बार पल्लकें झापकायें



बधाई हो  
मैं आपके लिये बहुत खुश हूँ


2 बार पलकें झापकायें  
लंबी देर तक आँखें बंद रखें




मुझे आप पर गर्व है

1 बार आँख झापकायें  
1 बार पलकें झापकायें

A




B




मुझे दर्द/बेचैनी है

## हर भाग की ओर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



आगे




पीछे

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार आँखें घुमायें  
1 बार आँख झपकायें

A



B



मेरी पञ्जिशन को बदलो


## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको




कुर्सी पर बैठाओ



सीधा लेटाओ



बायें मोड़ो



दायें मोड़ो

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें



नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार ऊपर देखें  
1 बार नीचे देखें

A



B



मुङ्गे कुछ खाने का मन है

## हर विकल्प पर इशारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठक्को



फल



पसंदीदा खाना



ठंडा



मीठा



तीखा




गर्म

हॉँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार आँखें घुमायें



मनोरंजन

## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



टीवी




संगीत



अखबार



आईपैड




फिल्म

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार आँखें घुमायें  
1 बार पलकें झपकायें



बिजली उपकरण

## हर विकल्प पर झारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



पंखा



एसी



लाइट



टीवी



हीटर



बढ़ाओ




कम करो

हॉ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

2 बार बायें आँख झपकायें  
2 बार दायें आँख झपकायें




कपड़े से पोंछो

## हर भाग की ओर इशारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



आगे



पीछे



चेहरा

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

दायें देखें




मुङ्गे हिलाओ

## हर भाग की ओर इशारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



आगे




पीछे

हॉँ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार एक ओँख झपकायें  
2 बार पलकें झपकायें

A



B




x 2

मालिश करो

## हर भाग की ओर इथारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



आगे




पीछे

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार पलकें झपकायें  
1 बार आँखें घुमायें  
1 बार एक आँख झपकायें




मुङ्गे पकड़ो

हर भाग की ओर इशारा करो  
और प्रतिक्रिया के लिए ठक्को



आगे




पीछे

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें


2 બાર પલકેં ઝાપકાયે  
1 બાર ઊપર દેખો

A




x 2

B




ઉઠાઓ

## हर भाग की ओर इशारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठक्को



आगे




पीछे

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें


नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

1 बार बायें आँख झापकायें  
1 बार पलकें झापकायें  
1 बार दायें आँख झापकायें




पानी से साफ करो

## हृत भाग की ओर इथारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



आगे




पीछे

हॉँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें



2 बार दायें आँख झपकायें  
2 बार बायें आँख झपकायें

A



≤ x2


B




x2

खुजली करो

हर भाग की ओर इशारा करो  
और प्रतिक्रिया के लिए ढको



आगे





पीछे

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें

2 बार एक आँख झापकायें  
1 बार पलकें झापकायें



बदलो

## हर विकल्प पर इथारा करो और प्रतिक्रिया के लिए ठको



कपडे



तकिया/  
तकिये का कवर



डायपर




चादर/  
रजाई

हाँ = 1 बार पलकें झापकायें

नहीं = 2 बार पलकें झापकायें



2 बाट एक आँख झपकायें  
2 बाट पलकें झपकायें

A



$\leq$  x 2

B



x 2

बराबर करो

## ਹਰ ਵਿਕਲਪ ਪਰ ਝਥਾਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਪ੍ਰਤਿਕਿਧਾ ਕੇ ਲਿਏ ਢਕੋ



ਰਜਾਈ



ਕਪਡੇ



ਚੱਮਾ



ਬਾਲ



ਤਕਿਆ

ਛੋਂ = 1 ਬਾਰ ਪਲਕੇਂ ਝਾਪਕਾਵੇਂ

ਨਹੀਂ = 2 ਬਾਰ ਪਲਕੇਂ ਝਾਪਕਾਵੇਂ

1 बार ऊपर देखें  
1 बार नीचे देखें  
1 बार आँख झापकायें


A



B





C





जन्मदिन / वर्षगाँठ / ल्यौहार / मदर्से के  
की बधाई हो

1 बार ऊपर देखें  
1 बार नीचे देखें  
2 बार एक ओँख झपकायें


A



B




C





x 2

1 बार आँखें घुमायें  
1 बार पल्कें झपकायें  
1 बार आँखें घुमायें  
1 बार आँख झपकायें




1 बार बायें ओँख झापकायें  
2 बार पल्कें झापकायें  
1 बार दायें ओँख झापकायें

A




B



x 2

C





1 बार बायें देखें  
1 बार दायें देखें  
3 बार पलकें झापकायें



A



B




C





x 3

1 बार बायीं आँख झपकायें  
2 बार दायीं आँख झपकायें





2 बार बायें आँख झापकायें  
1 बार पलकें झापकायें  
2 बार दायें आँख झापकायें

A





x 2

B




C



x 2

1 बार पल्कें झापकायें  
1 बार आँखें घुमायें  
1 बार पल्कें झापकायें



वर्णमिला

# A

1 बार झपकाना

# B

1 बार झपकाना

1 बार आँख मारना

# C

1 बार बंद करना

1 बार ऊपर

# D

1 झपकाना

1 बार धुमाना

# E

1 बार झपकाना

1 बार बाएँ

# F

1 बार झपकाना

1 बार दाएँ

# G

1 बार झपकाना

1 बार झपकाना

# H

1 बार आँख मारना

# I

1 बार आँख मारना

1 बार ऊपर

# J

1 बार आँख मारना

1 बार धुमाना

# K

1 बार आँख मारना

1 बार बाएँ

# L

1 बार आँख मारना

1 बार दाएँ

# M

1 बार आँख मारना

1 बार आँख मारना

# N

1 बार आँख मारना

2 बार आँख मारना

# O

1 बार धुमाना

**P**

1 बार घुमाना  
1 बार घुमाना

**Q**

1 बार ऊपर

**R**

1 बार ऊपर  
1 बार नीचे

**S**

1 बार ऊपर  
1 बार बाएँ

**T**

1 बार ऊपर  
1 बार दाएँ

**U**

1 बार ऊपर  
1 बार ऊपर

**V**

1 बार दाएँ

**W**

1 बार दाएँ  
1 बार बाएँ

**X**

1 बार दाएँ  
1 बार दाएँ

**Y**

1 बार बाएँ

**Z**

1 बार बाएँ झापकाना  
1 बार बाएँ झापकाना

## अनुक्रमाणिका

आठंभ/अंत	8	मुझे गले लगाओ	33
गलत	9	कुछ बात करते हैं	34
हाँ	10	चलो बाहर चलते हैं	35
नहीं	11	मुझे घट जाना है	36
मैं ठीक हूँ	12	मुझे मेरे कुत्ते/बिल्ली से मिलना है	37
मैं ठीक नहीं हूँ	13	बधाई हो	38
परिवार को बुलाओ	14	मुझे आप पर गर्व है	39
डॉक्टर को बुलाओ	15	मुझे दर्द/बेचैनी है	40
मुझे नींद आ रही है	16	आगे/पीछे	41
साँस लेने में दिक्कत हो रही है	17	मेरी पञ्जिशन को बदलो	42
पानी	18	कुर्सी पर बैठाओ/सीधा लेटाओ/बायें गोड़ी/दायें गोड़ी	43
थौचालय	19	मुझे कुछ खाने का मन है	44
दिल में दर्द	20	फल/पसंदीदा खाना/ ठंडा/ मीठा/ तीखा/ गर्म	45
आज आप कैसे हैं?	21	मनोरंजन	46
आपातकाल	22	टीवी/संगीत/अखबार/आईपैड/फिल्म	47
चक्कर आ रहे हैं/ नाक बंद/ मरोड़/ घबराहट हो रही है/ गले में कुछ अटका है	23	बिजली उपकरण	48
संकट	24	पंखा/ एसी/ लाइट/ टीवी/ हीटर/बढ़ाओ/कम करो	49
कोई परेशान कर रहा है/ यौन शोषण/ चोर/पुलिस को बुलाओ	25	कपड़े से पोंछो	50
समर्था	26	आगे/पीछे/चेहरा	51
ठंड लग रही है/ मुझे थुकना है/ गर्मी लग रही है/ निवाला दांत में अटका है/ सर दर्द	27	मुझे हिलाओ	52
मेरा स्थान बदलो	28	आगे/पीछे	53
कुर्सी/ पलंग/ सोफा/ व्हीलचेयर/ खाने की मेज़	29	मालिश करो	54
मुझे तुम से प्यार है	30	आगे/पीछे	55
मुझे माफ कर दो	31	मुझे पकड़ो	56
धन्यवाद	32	आगे/पीछे	57
		उठाओ	58
		आगे/पीछे	59

## **अनुक्रमाणिका**

पानी दे साफ करो	60
आगे/पीछे	61
खुजली करो	62
आगे/पीछे	63
बदलो	64
कपड़े/ तकिया/ तकिए का कवर/ डायपर/ चादर/ रुजाई	65
बटाबट करो	66
रुजाई/कपड़े/चश्मा/बाल/तकिया	67
जन्मदिन/ वर्षगाँठ/ त्यौहार / मदर्स्डे की बधाई हो	68
-----	69
-----	70
-----	71
-----	72
-----	73
-----	74
वर्णमाला	75

## कृपया संपर्क कीजिए

### डॉ. हेमांगी साने

संस्थापक, आशा एक होप फाउंडेशन ALS/MND के लिये  
डिप्टी डायरेक्टर, न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट  
402, गुळप्रभा अपार्टमेंट, सेनापति बापट रोड, दादर (पश्चिम),  
मुंबई, महाराष्ट्र 400028

+91 98197 41333

### गीत राठी

आशा एक होप, ALS/MND के लिये, स्वयसेवक आणि संस्थापक लिंक टू स्पीक  
402, गुळप्रभा अपार्टमेंट, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम),  
मुंबई, महाराष्ट्र 400028

+91 9833890099

### डॉ. आलोक शर्मा

डायरेक्टर, न्यूरोजेन ब्रेन एंड स्पाइन इंस्टीट्यूट  
प्लॉट 19, सीकटर 40, सीवूडस ग्रैंड सेंट्रल ऐलवे स्टेशन के पास,  
ऑफ पाम बीच रोड, सीवूडस, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400706

+91 99202 00400



[ashaekhope.com](http://ashaekhope.com) | [neurogenbsi.com](http://neurogenbsi.com)

**blinktospeak.com**  
[ashaekhope.com](http://ashaekhope.com) | [neurogenbsi.com](http://neurogenbsi.com)

SIZE: 15(w) X 20(h) cms

ଓঁক দু  
মীক

আঁকে  
কি আশা -  
হিঁতি

Spine